

GENERAL INSTRUCTIONS

1. Passbook is a record of transactions of the depositor and balance should be claimed legally.
2. It is the duty of the depositor to conserve the passbook from the concerned post office is legally liable to pay the amount available in its record.
3. Always take a printed receipt from the post office when you hand over the passbook to the post office for any purpose.
4. Always keep the passbook in your personal custody and post office will not be responsible for any loss of money in case passbook is handed over to any other person.
5. Do not keep specimen signatures in the passbook.
6. Check balance after transaction written in the passbook and contact postmaster immediately in case of any discrepancy.
7. In case of loss of passbook, report the matter in writing to the postmaster immediately.
8. Intimate change of address if any to the postmaster.
9. Don't hand over blank signed withdrawal forms to any person including authorized agents.
10. Do not appoint postmasters or authorised agents as messengers for withdrawal of money from your account.



Pledge to B/E RWD
(W) DM Madhepur
W/LN - 1206 at 30.12.19

P.O Name : Puraini Bazar S.O.
Scheme Description : TERM DEPOSIT FOR FI
Account Number : 4603062625
Name of Depositor(s) : S.P.M
1: AMIT KUMAR/
CIF -347352761
2: /
CIF -
3: /
CIF -
First Depositor Address :
SAPARDH PURAINI/
/

Puraini Bazar S.O
Madhepura - 852116

MADHEPURA
BIHAR, 852116
Account Open Date : 04-11-2019
Maturity Date : 04-11-2024
Mode Of Operation : SELF
Date Of Birth : 05-12-1982
Nominee Registered : Y
Agent ID : MI8521160100001
Yearly Interest Payable (approx) (in Rs):
(Rupees Twenty Nine Thousand Three Hundred)
Deposit Amount (in Rs): 37000
(Rupees Thirty Seven Thousand)
Signature of Postmaster :

Signature of Postmaster :
[Handwritten signature]

तारीख
Date

लेन देन का विवरण
Particulars of Transactions

जमा
Deposit

निकासी
Withdrawal

बकाया
Balance

स. ह.
Initials

04.11.19

Amee Singh

370000/-

370000/- ✓

②

③

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

एकल धारक संयुक्त 'क' संयुक्त 'ख'
@ Single Holder Joint 'A' Joint 'B'

1000

एक हजार रुपये

आठवां निर्गम

VIII ISSUE

6 एन एस / 82CC 900924

1000
RUPEES
ONE THOUSAND

6-YEAR NATIONAL SAVINGS CERTIFICATE

भारत सरकार

अमित कुमार

साम+पो+ सपर+66

गामा- 211.6- 244-7071 को

(धारक धारकों का नाम और पता)

दिनांक को या उसके बाद 1601.00 रुपये (एक हजार छह सौ एक रुपये) से अनधिक राशि अदा करने का वचन देती है। यह पत्र भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 496 (अ), दिनांक 1 मई 1989 के अनुसार जारी किया गया है तथा समय समय पर संशोधन किया गया है।

जो भाग लगान हों उन्हें काट दीजिए।

निर्गम डाकघर
POST OFFICE OF ISSUE


निर्गम की तारीख
DATE OF ISSUE

पंजीकरण संख्या
REGISTRATION NO.

नामांकन पंजीकृत
NOMINATION REGISTERED

संख्या
NO.

तारीख
DATED



The Government of India promises to pay to

(Name and address of holder / holders)
a sum not exceeding Rs. 1601.00 (RUPEES ONE THOUSAND SIX HUNDRED AND ONE) only on or after the
This certificate is issued pursuant to Government of India, Ministry of Finance, Notification No. G. S. R. 496 (E) dated the 1st May 1989 and amended from time to time.

@ Strike out portions not applicable.

डाकपाल के हस्ताक्षर
SIGNATURE OF POSTMASTER

1000

1000

पुष्टभाग देखिये SEE REVERSE

INDIA SECURITY PRESS NASHIK ROAD